



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1166]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2007/आश्विन 4, 1929

No. 1166]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2007/ASVINA 4, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2007

का.आ. 1603(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

घोषणा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री अम्बेथ राजन,
डी-6/9, सेक्टर-71, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश,

जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में, सुश्री मायावती के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ

तारीख : 24 सितम्बर, 2007

ह./-

रिटर्निंग ऑफिसर

[फा. सं. एच-11024(3)/2006-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

3997 GI/2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2007

S.O. 1603(E).—In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Ambeth Rajan,
D-6/9, Sector-71, Noida,
Gautam Budha Nagar,
Uttar Pradesh

sponsored by Bahujan Samaj Party, has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Miss Mayawati.

Place : Vidhan Bhawan, Lucknow.

Date : September 24, 2007.

Sd/-

Returning Officer

[F.No. H-11024(3)/2006-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel